



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21]

नई दिल्ली, मई 19—मई 25, 2019, शनिवार/वैशाख 29—ज्येष्ठ 4, 1941

No. 21]

NEW DELHI, MAY 19—MAY 25, 2019, SATURDAY/VAISAKHA 29—JYAISTHA 4, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मई, 2019

**सा.का.नि.128.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उप-विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार और विधि सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उप-विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार और विधि सहायक (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.** — ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1), में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.** — भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.** — वह व्यक्ति, —  
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की हैं, या  
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है  
 उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:  
 परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां व उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. उप विधि सलाहकार	01' (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—12, (78800—209200 रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति गठित है तो उसका संघटन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
मिश्रित पद्धति: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति	मिश्रित पद्धति: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प—कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति  केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान के अधिकारी:  (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, अथवा	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

	<p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य में स्तर-11, में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, और निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि की डिग्री; और</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में विधि संबंधी विषयों में दस वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण-1.</b> वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में विभागीय सहायक विधि सलाहकार जिसने श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है, प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण-2.</b> पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण-3.</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) की अवधि, केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) की अवधि सहित साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-4.</b> प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. सहायक विधि सलाह-कार	01* (2019) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसंधिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, (67700-208700 रु).	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
<b>मिश्रित पद्धति:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति	<p><b>मिश्रित पद्धति:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति</p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान के अधिकारी:</p> <p>(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य में स्तर-10, या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य में स्तर-7, या समतुल्य में सात वर्ष नियमित सेवा की हो, और</p> <p>निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों:-</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि की डिग्री; अथवा</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या वैधानिक या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में विधि संबंधी विशयों में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण—1.</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में विभागीय विधि सहायक जिसने श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है; प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण—2.</b> — पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पवित में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण—3.</b> — प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) की अवधि, केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग— बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण—4.</b> — प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. विधि सहायक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, (44900-142400 रु).	लागू नहीं होता	<p>30 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p><b>टिप्पण—1.</b> केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण—2.</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के</p>	<p><b>आवश्यक:—</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में डिग्री; और</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या सूचीबद्ध प्राइवेट सेक्टर के संगठनों में विधि संबंधी में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण—1.</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण—2.</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

					पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती।  <b>टिप्पण:</b> पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 के पदों में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और (ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता	<b>विभागीय पुष्टि समिति :-</b>  1. अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली —अध्यक्ष  2. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली —सदस्य  3. निदेशक या उप सचिव, प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली —सदस्य  4. उप विधि सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 6-13/2014-आरओएचक्यू]

अभिजीत रॉय, अवर सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

New Delhi, the 20th May, 2019

**G.S.R. 128.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the posts of Deputy Legal Adviser, Assistant Legal Adviser and Legal Assistant in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely: —

- Short-title and commencement.** - (1) These rules may be called Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Deputy Legal Adviser, Assistant Legal Adviser and Legal Assistant, (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of the said post, their classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.
- Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.,** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.** - No person, -
  - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax and of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

#### SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Deputy Legal Adviser	01* (2019) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level-12, (Rs. 78800-209200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Composite Method (deputation (Including Short-Term Contract) plus promotion)	<p>Composite method: (deputation (Including Short-Term Contract) plus promotion).</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution: -</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years regular service in level-11 in pay matrix or equivalent, and</p> <p>Possessing following qualification and experience: -</p> <p>(i) Degree in law from a recognised University/Institute; and</p> <p>(ii) ten years experience in legal matters in Central or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Bodies or Universities or Recognised Research Institutions.</p> <p><b>Note -1.</b> The Departmental Assistant Legal Adviser in level 11 of the pay matrix with five years of regular service in the grade is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary

(10)	(11)	(12)	(13)
	<p><b>Note -2.</b> The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note -3.</b> Period of deputation (including short-term contract), including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p><b>Note -4.</b> The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Assistant Legal Adviser	01* (2019) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level-11, (Rs. 67700-208700)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

(10)	(11)	(12)	(13)
Composite Method (deputation (Including Short-Term Contract) plus promotion)	<p>Composite method: [deputation (Including Short-Term Contract) plus promotion].</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) holding analogous post on regular basis; or</li> <li>(ii) with five years regular service in level-10 in pay matrix or equivalent, or</li> <li>(iii) with seven years regular service in level-7 in pay matrix or equivalent; and Possessing following qualification and experience: -</li> <li>(i) Degree in law from a recognised University/Institute; and</li> <li>(ii) five years experience in legal matters in Central or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Bodies or Universities or Recognised Research Institutions.</li> </ul> <p><b>Note -1.</b> The departmental Legal Assistant in level 7 of the Pay Matrix with seven years of regular service in the grade is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p><b>Note -2.</b> - The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note -3.</b> Period of deputation (including short-term contract), including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p><b>Note -4.</b> The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Legal Assistant	01* (2019)  *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B'  non Gazetted, non-Ministerial	Level-7, (Rs. 44,900-1,42,400)	Not applicable	Not exceeding 30 years  <b>Note -1.</b> (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note -2.</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	<b>Essential: -</b>  (i) Degree in Law from a recognised University/ Institute; and  (ii) two years experience in legal matters in Central or State Government or Public Sector Undertakings or listed private sector organisations.  <b>Note -1.</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2.</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years



(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Direct Recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years regular service in posts in pay level 6 in pay matrix; and;</p> <p>(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits in column (7).</p>	Not applicable	<p><b>Departmental Confirmation Committee: -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General of Forests (FC), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi –Chairman</li> <li>2. Director / Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi –Member</li> <li>3. Director/Deputy Secretary, Regional Office (Head Quarters), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi - Member</li> <li>4. Deputy Legal Adviser, Ministry of Environment, - Forest and Climate Change, New Delhi - Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. 6-13/2014-ROHQ]

ABHIJIT ROY, Under Secy.